

मुजफ्फरनगर: दिल्ली की फैक्ट्री में ब्रांडेड शराब के नकली ढक्कन-रैपर बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

26 Feb 2021, 12:26:00 AM

मुजफ्फरनगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की डिस्टलरी में बनने वाले ब्रांड के नकली ढक्कन और रैपर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।



राकेश शर्मा, मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की डिस्टलरी में बनने वाले ब्रांड के नकली ढक्कन और रैपर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह नकली माल दिल्ली की एक फैक्ट्री में तैयार होता था। यूपी पुलिस अब दिल्ली पुलिस की मदद से इस फैक्ट्री को सीज करने की तैयारी में है।

यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में फैले इस गैंग से पुलिस ने अवैध शराब की बोतल तैयार करने के उपयोग में होने वाले ढक्कन और रैपर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपी दिल्ली में संचालित अवैध फैक्ट्री के माध्यम से अंग्रेजी और देसी शराब की बोतलों पर लगने वाले ढक्कन और रैपर बनवाते थे, जिसकी सप्लाई कई राज्यों में अवैध शराब का कारोबार करने वालों को होती थी। पुलिस ने अलग-अलग राज्यों की डिस्टलरी के नाम से बने साढ़े 8 लाख ढक्कन और 2 लाख 80 हजार रैपर बरामद किए हैं।

पकड़े गए तीन आरोपी दिल्ली और एक आरोपी मथुरा का बताया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी चमन लाल उर्फ सागर के हवाले से बताया कि यह फैक्ट्री दिल्ली के शाहदरा निवासी सुरेश खटवा की है। पुलिस खटवा समेत चार लोगों की तलाश में जुटी है।

एक दिन में बनते हैं 25-39 हजार ढक्कन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि सरकारी ठेकों की डिस्टलरी के नाम पर नकली शराब बनाने वाले गिरोह के सरगना चमन के साथ तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो उसी के गैंग हैं। इनके पास से साढ़े 8 लाख ढक्कन और दो लाख 80 हजार रैपर बरामद हुए हैं, जिनकी सप्लाई हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, अलीगढ़ और गोरखपुर जैसे जनपदों में कर रहे थे। इसी के साथ एक फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, जो दिल्ली में है, जहां से यह लोग नकली ढक्कन, रैपर आदि बनवा रहे थे।

फैक्ट्री में लाखों की कीमत की तीन मशीनें लगी हुई हैं। जहां पर 25 से 30 हजार ढक्कन एक दिन में तैयार होते थे। दिल्ली पुलिस की मदद से अब फैक्ट्री को सीज कराया जा रहा है। 18 डिस्टलरी के ब्रांडों का मिला नकली माल इस गैंग के पास से राजस्थान के गंगानगर, बहरोड, उत्तराखंड की देहरादून डिस्टलरी, गोरखपुर की बंटी बबली, गाजीपुर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर समेत करीब 18 डिस्टलरी के नाम के नकली ढक्कन और रैपर बरामद हुए हैं।

